

WORKSHEET

Class: चौथी	Level: 1
Subject: हिंदी	Topic: अर्धवार्षिक परीक्षा पर आधारित पुनरावृत्ति अभ्यास- पत्रक

प्रश्न-1- सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए-

क- वाक्य के अंग हैं-

1-चार

2 - दो

ख- संज्ञा के भेद होते हैं-

1-दो

2 - तीन

ग- पुल्लिंग शब्द बोध कराते हैं-

1- पुरुष जाति का

2 - स्त्री जाति का

घ- किसी जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों या प्राणियों का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं-

1- व्यक्तिवाचक संज्ञा

2 - जातिवाचक संज्ञा

प्रश्न-2- कोष्ठक में दिए गए जातिवाचक शब्दों को भाववाचक शब्दों में बदलकर रिक्त स्थानों को भरिए-

क- अभी उसमें ----- है। (बचपन)

ख- उसकी ----- समाप्त नहीं हुई। (पढ़ना)

ग- ----- पाकर वह खुश हुआ। (सफल)

प्रश्न-3- नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए-

1-अध्यापक - -----

2-बंदर- -----

3-वीरता - -----

4-ऊँचाई - -----

प्रश्न 4- लिंग के अनुसार क्रिया ठीक करके वाक्य पुनः लिखिए-

क- गाय घास खाता है।

ख- माता पुत्री को प्यार करता है।

ग- बोतल खाली हो गया।

घ- - राधिका जा रहा है।

प्रश्न-5- दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए-

(बालिका मोर पण्डित वर चौधराइन पत्नी हाथी पपीता)

पुल्लिंग

स्त्रीलिंग

प्रश्न-6- एक शब्द में उत्तर दीजिए-

क- स्टेशन में अजीब खेल-खेलने वाला व्यक्ति कौन था ?

ख- आइसक्रीम बेचने के लिए पापा ने कौन-सा समय चुना ?

ग- पापा किस जानवर की तरह बनना चाहते थे ?

घ- अंत में पापा क्या बनना चाहते थे?

ङ- पापा किन्हें मुफ्त में आइसक्रीम देना चाहते थे ?

च- जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी?

छ- नसीरुद्दीन और जमाल साहब बनठन कर कहाँ घूमने गए?

ज- नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए ?

झ- 'नाव बनाओ नाव बनाओ' कविता के कवि कौन हैं?

अ- कविता में बादल कितने समुंदर का पानी भरकर लाया है?

ट- कविता में नाव किस चीज़ से बनाने को कहा जा रहा है?

ठ- कवि भैया से क्या छोड़ने के लिए कह रहे हैं?

प्रश्न 7- रिक्त स्थान की पूर्ति करें -

क- छप- छप कर ----- से अड़ती, बूँदों लहरों लड़ती -----।

ख- नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त ----- से मिलने गए ।

ग- शुरु - शुरु में पापा ----- बनना चाहते थे ।

घ- ----- की गुल्लक भारी तथा ----- की गुल्लक हल्की है।

ङ- 'पापा जब बच्चे थे' लेख के आधार पर हमें अच्छा ----- बनना चाहिए ।

प्रश्न 8- सही / गलत का निशान लगाएँ -

क - आइसक्रीम के ठेले का रंग चटकदार लाल था ।

ख - नसीरुद्दीन ने अपनी भड़कीली अचकन अपने दोस्त जमाल को पहनने को दिया।

ग - नाव बनाने के लिए भैया जल्दी से तैयार हो गए ।

प्रश्न 9 - पर्यायवाची शब्द लिखिए -

क - सूरज -----

ख - पानी -----

ग - आग -----

घ - नदी -----

ङ - आँख -----

प्रश्न 10 - विलोम शब्द लिखिए -

क - उदय - -----

ख - उचित - -----

ग - जीवन - -----

घ - समाप्त - -----

ङ - मान - -----